



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—उप-खण्ड 2
PART I—Sub-section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्रहायण 9, 1901
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1979/AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

प्रसिद्धता

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979

सं० 4/2/79-स्टेट्स.—श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी 27 नवम्बर, 1979 से राष्ट्रपति की मन्त्रि-
परिषद् में मंत्री नहीं रहे।

श्री पी० अकिनीडू प्रसाद राव 27 नवम्बर, 1979 से राष्ट्रपति की मन्त्रिपरिषद् में राज्य
मंत्री नहीं रहे।

एस० शान्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1979

No. 4/2/79-States.—Shri K. Brahmananda Reddy has, with effect from the 27th November, 1979, ceased to be a Minister in the Council of Ministers of the President.

Shri P. Ankineedu Prasad Rao has, with effect from the 27th November, 1979, ceased to be a Minister of State in the Council of Ministers of the President.

S. SANTHI, Jt. Secy.